

August 24, 2021

BSE Limited, (Corporate Relationship Department), P J Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai- 400 001

BSE Code: 530343

National Stock Exchange of India Ltd., (Listing & Corporate Communications), Exchange Plaza, Plot no. C/1, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai - 400 051.

NSE Symbol: GENUSPOWER

Dear Sir,

Sub: Newspapers advertisement with regard to dispatch/emailing of Notice of the 29th AGM, Annual Report 2020-21 and other related matters.

Please find enclosed herewith a copy of newspaper advertisement published in the newspapers with regard to dispatch/emailing of Notice of the 29th Annual General Meeting (AGM) along with the Annual Report for the financial year 2020-21, E-voting Schedule, Record/Cut-off Date and Book Closure of Register of Members & Share Transfer Books for the purpose of the said AGM and payment of dividend, if approved at the AGM.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

For Genus Power Infrastructures Limited

Ankit Jhanjhari (Company Secretary)

Encl. as above

Genus Power Infrastructures Limited

At 55,000, US clears most Indian student visas in '21

Ahmedabad, 23 August

he US Mission in India on Monday said its Embassy and Consulates have approved more student visa applicants in 2021 than ever before, 'despite the Covid-19 pandemic".

More than 55,000 students and exchange visitors will go to the US from India this year, and the number is going up each day with the US Mission planning to approve more applications.

Embassies and Consulates usually begin interviews for applicants for the fall semester in May. However, the schedule has been deferred by two months this year due to the pandemic.

In July, the work to issue visas started as soon as conditions allowed for resumption of visa services without risking applicants' health.

The US Embassy and Consulates offi-



cials said they worked beyond the working hours to accommodate as many visa applications as possible. On the record student visa approvals, Ambassador Atul Keshap, Chargé d'Affaires at the US Embassy in New Delhi, told Business Standard, "The US Mission in India is proud to facilitate students' travel and

studying in the US. Indian students, too, enrich the US society, achieve high levels of academic success, and deepen the bonds of friendship between our

The US Mission said the American higher education system comprised over 4,500 nationally and regionally accredited colleges and universities in the US, which are recognized worldwide for the quality of their programmes, faculty, and facilities.

Given the continued interest among Indian students looking to study in the US, the US Mission to India has not only invited students to visit https://educationusaindia.usief.org.in/but also participate in the upcoming Education USA University Virtual Fairs, to be held on August 27 for graduates, and on September 3 for prospective undergrad-

India could gain \$11 trn in 50 yrs with climate action, says report

SHALLY SETH MOHILE Mumbai, 23 August

Unmitigated climate change can cost India \$35 trillion in economic potential over the next 50 years. Therefore, India must act now to prevent the country from the colossal loss, according to the latest Deloitte Economics Institute.

The report, titled, "India's turning point: How climate action can drive our economic future", reveals how the country could instead gain \$11 trillion in economic value over

Panel on Climate Change) report that flags serious conimpact on the world due to ris- sustainable

Eicher Board...

"Over the past four years, we

have had the same limit of 3

per cent, but in reality have

paid only a fraction of that

amount. The remuneration

during FY21 was 1.04 per cent

of profits, with the preceding

vears being at a lower percent-

highlighted was that in FY21.

per cent when the median

employee hike was 1 per cent.

in FY21 is in line with the aver-

age 9.7 per cent increment giv-

en to all employees for the

measure of central tendency,

"The median, which is a

Another important aspect

got a hike of around 997

The remuneration increase

age," the statement said.

▶ FROM PAGE 1

ing temperature. Glacial retreat in the Hindu Kush Himalayas: compounding effects of sea-level rise and intense tropical cyclones leading to flooding; an erratic monsoon; and intense heat stress are likely to impact India in recent years, indicat-


According to Atul Dhawan, chairperson, Deloitte India, India has a narrow window of time — the next 10 years — to make the decisions needed to alter the trajectory of climate

ed the IPCC report released

earlier this month.

this is a window of opportunity to "lead the way and show how climate action is not a change and its catastrophic narrative of cost but one of

ECONOMIC COST IF NO ACTION TAKEN



growth."

As India aspires to be a \$5trillion economy, it is not just foreign and domestic investments that will be the key in driving growth, the country must also take this opportunity to align its ambitions with climate choices, he says.

With no action taken on climate change, the average global temperatures could rise by 3°C or more by the end of this century. This will make it harder for people to live and work, as sea levels rise, crop yields fall, infrastructure is damaged, and other challenges emerge, threatening the progress and prosperity that the nation has enjoyed in recent decades.

Over the next 50 years, the top five most impacted industries in terms of economic activity are expected to incur a significant share of climaterelated loss, says the report. These industries —services (government and private), manufacturing, retail and tourism, construction, and transport — currently account for more than 80 per cent of India's GDP, Together, they form the basis of the country's contemporary economic

Place : Jaipur

Dated : August 23, 2021

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड HINDUSTAN COPPER LIMITED (A Government of India Enterprise)

Ankit Jhanjhari Company Secretary

Genus Power Infrastructures Limited

(Registered Office: G-123, Sector-63, Noida-201307, Uttar Pradesh)
(Tel.: +91-120-2581999; E-mail: cs@genus.in; Website: www.genuspower.com; CIN: L51909UP1992PLC051997

Notice of the 29th Annual General Meeting, Book Closure and E-Voting Information

Notice is hereby given that the 29th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Genus

Power Infrastructures Limited ("the Company") will be held on Thursday, September 16, 2021 at 3:30 p.m. IST through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made

thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, read with the MCA's circular no. 14/2020 dated April 08, 2020, circular no.17/2020 dated April 13, 2020. circular no. 20/2020 dated May 05, 2020 and circular no. 02/2021 dated January 13, 2021 and other relevant circulars issued by MCA and the SEBI in this regard (Collectively referred to as "applicable circulars") to transact the business as set forth in the Notice of AGM. The Members can

ioin the AGM in the VC/OAVM mode 30 minutes before and after the scheduled time of the

join the AGM in the VC/OAVM mode 30 minutes before and after the scheduled time of the commencement of AGM by following the procedure mentioned in the Notice of AGM. In accordance with the applicable circulars, the Notice of AGM and Annual Report for the financial year 2020-21 have been sent on August 20, 2021 to all those Members of the Company, whose email addresses are registered with the Company/Registrar and Transfer Agent ("RTA")/Depository Participant(s). The aforesaid documents are also available on website of the Company at

www.genuspower.com, website of the Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") at www.evotingindia.com and website of the Stock Exchanges at www.bseindia.com and

www.nseindia.com.

Members holding shares as on the cut-off date i.e. September 09, 2021 may cast their vote electronically on the business as set forth in the Notice of AGM through remote e-voting or e-voting

during the AGM. The detailed procedure or instructions for e-voting and joining the AGM are

allowed beyond the said date and time.

ig the Adwi. The detailed procedure of instructions for e-voting and joining the Adwi are ided in the Notice of AGM. In this regard, the Members are hereby informed that:

The remote e-voting shall commence on Monday, September 13, 2021 at 9.00 am (IST) and end on Wednesday, September 15, 2021 at 5.00 pm (IST). The remote e-voting shall not be

The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting after 5.00 p.m. (IST) on

It is hereby clarified that it is not mandatory for a member to vote using the remote e-voting

realistic Members have also an option to cast their vote through e-voting by attending the AGM. Members can opt for only one mode of voting. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their

A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial

owners maintained by the depositories as on the cut-off date, i.e. September 09, 2021 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting during the AGM. A person, who is not a Member as on the said cut-off date, should treat this Notice or Notice of

AGM for information purposes only.

Members, who are holding shares in physical form or who have not registered their email

addresses with the Company, can cast their vote through remote e-voting or through the e-voting system during the AGM by following the procedures/instructions, mentioned in the Notice of the AGM.

wembers, win have not registered neir Email Libs or mose win have acquired shares after the dispatch of the Notice of the AGM including the Annual Report and who continue holding shares as on the cut-off date, i.e. Thursday, September 09, 2021, can obtain/generate the user ID and password as per the instructions provided in the Notice of the AGM for e-voting. However, if a person is already registered with CDSL/NSDL for e-voting, then existing login ID and password can be used for casting vote. Member can also login using the login credentials of his/her demat

account through his/her depository participant registered with NSDL/COSL for e-voting facility. Members are advised to update their mobile number and email-id in their demat accounts in order to access e-voting facility. Members, who are present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote.

on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall

on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system available during the AGM.

(viii) Member, participating through the VC/OAVM facility, shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

(ix) If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the CDSL e-Voting System, you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022-23058738 and 022-23058542/43.

(x) All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, Central Depository Services (India) Limited, AWing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43.

(xi) The company has appointed Mr. C. M. Bindal, Practicing Company Secretary (FCS No. 103, CP No. 176) of M/s. C. M. Bindal & Co., Company Secretaries, Jaipur, as the scrutinizer to scrutinize the voting at the AGM and remote e-voting process in a fair and transparent manner.

scrutinize the voting at the AGM and remote e-voting process in a fair and transparent manner. The Board of Directors has recommended a dividend of Re.0.50 (Fifty paisa) per equity share on

equity shares of the face value of Re.1 each (i.e. 50% of the face value) for the FY 2020-21 to the Shareholders for their approval. The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, September 10, 2021 to Thursday, September 16, 2021 to Thursday, September 16, 2021 (both days inclusive) for the purpose of AGM and for determining the entitlement of Members to the

dividend. The dividend, once approved by the Members in the ensuing AGM, will be paid on or before October 15, 2021 (i.e. within a period of 30 days from the date of declaration) to those Members whose name appears in the Register of Members as of the close of business hours on Thursday, September 09, 2021 subject to deduction of tax at source, where applicable. The dividend will be

paid through various online transfer modes to the Members who have updated their bank account

details. For Members who have not updated their bank account details, dividend warrant/cheque will be sent to their registered address, subject to availability of postal services. To avoid delay in receiving dividend, members are requested to update their bank details with their Depository Participants, where shares are held in dematerialised mode, and with the RTA/Company, where the

shares are held in physical mode. Pursuant to the Income Tax Act, 1961, as amended by Finance Act 2020, dividend income is taxable in the hands of Members and the Company is required to deduct tax at source from dividend paid to Members at the prescribed rates. To enable compliance with respect to TDS, Members are requested to update their PAN with the company/RTA (in case shares

are held in physical mode) and depositories (in case shares are held in demat mode)

सदस्यों के सचनार्थ

Notice to Members In view of CoVID-19 Pandemic, the 54th Annual General Meeting (AGM) of Hindustan Copper Ltd (HCL) will be held on Wednesday, 22.09.2021 at 11.00 am, IST through Video Conferencing /Other Audio Visual Means (VC/OAVM) in compliance with provisions of Companies Act, 2013 and Rules notified there under (the Act) read with Ministry of Corporate Affairs Circular dated 05.05.2020, 08.04.2020, 13.04.2020 and 13.01.2021 (collectively referred to as "the Circulars"). Notice of AGM and Annual Report 2020-21 are being sent by electronic mode to Members whose email addresses are registered with HCL or Depository Participant (DP). The same will be also available on HCL's website at www.hindustancopper.com, websites of Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www1.nseindia.com respectively, and on the website of NSDL

i.e. https://www.evoting.nsdl.com Pursuant to the Act and the Circulars, HCL is providing the facility of remote e-voting, participation in AGM through VC/ OAVM and e-voting on the day of AGM, by availing the services of NSDL. Members holding shares, either in physical or dematerialized form, as on the cut-off date of 15.09.2021 may cast their vote on resolutions. The remote e-voting period commences at 9:00 AM (IST) on 19.09.2021 and ends at 5:00 PM (IST) on 21.09.2021. The process and manner of attending AGM through VC/OAVM and voting on resolutions either by remote e-voting or e-voting on the day of AGM is given in notes to AGM Notice.

Members whose email ID is registered with HCL/DP, login details for e-voting will be sent to their registered email address. Members whose email ID is not registered with HCL/DP are requested to register/ update their e-mail address (a) in case shares are held in physical form, by submitting the 'Email Registration Form' available at HCL's website www.hindustancopper.com to HCL's Registrar and Transfer Agent (RTA), M/s C B Management Services (P) Ltd at rta@cbmsl.com (b) in case shares are held in demat form, Members are requested to register/ update e-mail address with

The Board of HCL has recommended payment of dividend at the rate of Re 0.35 per share of ₹ 5/- face value for FY 2020-21 subject to approval of shareholders at AGM and dividend shall be paid within 30 days of declaration to those members whose names appear in Register of Members and beneficial owner's data at the close of working hours on 15.09.2021. To avoid delay in receiving dividend, Members are requested to provide / update their Bank Account details (including MICR No., IFSC Code, Account Type etc.) with their DPs if shares are held in demat form and with RTA if shares are held in physical form, to receive dividend directly in their bank account on the payout date. As per IT Act, dividend paid after 01.04.2020 shall be taxable in the hand of shareholders and Company shall deduct TDS at the time of making payment. Members are requested to complete and / or update their residential status, PAN, category as per IT Act with DP or in case of physical shares with RTA/ Company by providing required document on or before 12.09.2021, detailed instructions in this regard provided under 'Investors Relations' at Company's website.

For Hindustan Copper Ltd

स्थान/Place : Kolkata (C S Singhi) तिथि/Date : 23.08.2021 ED (Co Secretary)

Pennar Industries Limited

Registered Office: Floor No. 3, DHFLVC Silicon Towers, Kondapur, Hyderabad - 500 084 CIN: L27109AP1975PLC001919 T: +91 40 4006 1623

NOTICE FOR ATTENTION OF THE SHAREHOLDERS

Shareholders may note that the 45th Annual General Meeting (e-AGM) of the Compar will be held through Video Conferencing (VC) / other audio visual means (OAVM) on Thursday, September 30, 2021 at 11:00 a.m. IST in compliance with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 33/2020, 39/2020, 02/2021 and 10/2021 and other applicable laws and circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Securities and Exchange Board of India (SEBI), to transact the business that will be set

In line with the above-said circulars of MCA and SEBI, the Notice of 45th e-AGM, Annual Report and other reports/documents (e-AGM documents) will be sent through electronic mode only to such shareholders whose email addresses are registered with Depository Participants (DPs) / Registrar and Share Transfer Agent (RTA).

Shareholders, holding shares in dematerialized mode, are requested to register their e-mail addresses and mobile numbers with their respective DPs. Shareholders, holding shares in physical mode, are requested to furnish a scanned signed copy of the reques letter providing the email address, mobile number and self-attested PAN copy to the Company's RTAKFin Technologies Private Limited (formerly Karvy Fintech Private Limited) at the email address - einward.ris@kfintech.comfor receiving the e-AGM documents. Please note that the physical/hard copies of the e-AGM documents will

The e-AGM documents will also be made available on the websites of the Compan (www.pennarindia.com), stock exchange viz., BSE Limited (www.bseindia.com) National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and the Company's RTA (https://evoting.kfintech.com/)

Shareholders will have an opportunity to cast their vote remotely on the business as set forth in the Notice of the e-AGM through electronic voting system. The manner o voting remotely by shareholders will be provided in the said Notice. Detailed instruction to Members for joining e-AGM through VC / OAVM will also be set out in the Notice of

for Pennar Industries Limited

Place: Hyderabad Date: 23.08.2021

Mirza Mohammed Ali Baig Company Secretary & Compliance Office

Vardhmān

VARDHMAN SPECIAL STEELS LIMITED

Registered Office: Vardhman Premises, Chandigarh Road, Ludhiana-141 010 (Punjab), India Tel No: 0161-2228943-48, Fax: 0161- 2601048 PAN: AADCV4812B, CIN: L27100PB2010PLC033930 ${\bf Email: secretarial.lud@vardhman.com}$ Website: www.vardhman.com /www.vardhmansteel.con

<u>NOTICE OF AGM, BOOK CLOSURE, E-VOTING DETAILS AND DIVIDEND</u>

Notice is hereby given that the 11th Annual General Meeting (AGM) o the Members of Vardhman Special Steels Limited is scheduled to be held on Friday, 17th September, 2021 at 10:30 a.m. through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, read with Circulars issued by Ministry of Corporate Affairs dated January 13, 2021, May 5, 2020, April 13, 2020 and April 8, 2020 and SEBI Circulars dated January 15, 2021 and May 12, 2020 (collectively referred to as "relevant circulars"), to transact the business set out in the Notice calling the AGM. Participation of Members through VC / OAVM will be reckoned for the purpose of quorum for the AGM as per section 103 of the

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday 6th September, 2021 to Friday, 17th September, 2021 (both days inclusive) for the purpose of AGM and payment of dividend for the financial year 2020-21, if declared by Members at the AGM.

In compliance to the above circulars, the Notice of the AGM alongwith Annual Report for the F.Y. 2020-21, have been sent to all the Members whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant(s). The aforesaid documents are also available on the Company's website at www.vardhman.com /www.vardhmansteel.com and on the website of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively. Notice of AGM is also available on the website of CDSL at www.evotingindia.com.

Further, pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and relevant circulars, the Company is pleased to provide the facility to Members, to exercise their right to vote, by electronic means on all the resolutions as set out in the Notice of AGM, either through remote e-Voting or e-Voting during AGM.

All the Members are informed that:

- The remote e-Voting period shall commence from Tuesday, 14th September, 2021 from 9:00 a.m. and shall end on Thursday, 16th September, 2021 at 5:00 p.m. The remote e-Voting module shall be disabled by CDSL after the aforesaid date and time for e-Voting and once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently: The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic
- means is Friday, 10th September, 2021;
- who acquires shares and become Member of Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. Friday, 10th September, 2021, may cast their votes by following the instructions and process of e-Voting as provided in the Notice of AGM
- Members may note that:
-) the manner of e-Voting by Members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for Members who have not registered their email addresses is provided in the Notice of the AGM and is also available on the website of the Company;
- Members holding shares in physical mode and who have not registered/ updated their email address with the Company are requested to register/update the same by writing to the Company with details of folio number and attaching a self-attested copy of PAN card at secretarial.lud@vardhman.com or to RTA at rta@alankit.com:
- Members holding shares in dematerialized mode who have not registered/updated their email address with their Depository Participant(s) are requested to register/update their email addresse
- with the relevant Depository Participant; the voting rights of Members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date;
- the Members who have cast their vote by remote e-Voting prior to the AGM may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote
- a person whose name is recorded in the register of Members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date shall be entitled to avail the facility of e-Voting:
-) the result of the resolutions passed at the AGM will be declared within 2 working days from the conclusion of AGM.
- Manner for registering mandate for receiving dividend:
- Members holding shares in dematerialized mode are requested to register/ update their Bank Account details with the relevant Depository Participant.
-) Members holding shares in physical mode are requested to register/update their Bank Account details by submitting scanned copy of a covering letter, duly signed by the first shareholder, along with a cancelled cheque leaf with your name and bank account details and a copy of your PAN card, duly self-attested, with RTA at rta@alankit.com. In case the cancelled cheque leaf does not bear your name, please attach a copy of the bank pass-book statement, duly self-
- In accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 ('the Act') as amended from time to time, dividend declared and paid by a company is taxable in the hands of shareholders and the Company is required to deduct tax at source (TDS) from dividend paid to the shareholders at the applicable rates. We shall, therefore, be required to deduct tax at source at the time of making the payment of the said Dividend. A brief communique summarizing the applicable TDS provisions, as per the Income Tax Act, 1961, for resident and nonresident shareholder categories together with documentation requirements from members in this regard can be viewed at web link: https://www.vardhman.com/user_files/investor/Shareholder%20Intim ation_FY21-22%20-VSSL.pdf

For any queries you may contact the following:-

Contact Person: Ms. Sonam Taneja

Designation: Company Secretary

Address: Registered Office, Vardhman Premises, Chandigarh Road, Ludhiana-141010, Punjab

E-mail: secretarial.lud@vardhman.com Phone No.: 0161-2228943-48

By order of the Board of Directors

Place: Ludhiana Date: 24.08.2021

(Sonam Taneja) **Company Secretary**

the same period. Deloitte's report comes against the backdrop of the (Intergovernmental cerns related to climate

No one is immune to the impact of climate change but for India, points out Dhawan, those 77 per cent were hired at below the median salary and 284 employees left the firm. Of the 284, 66 per cent were draw-

portfolio, and to focus on Roval Enfield motorcycles and Eicher trucks and buses," said S Sandilya, chairman of Eicher Motors. The company's revenues have grown from ₹375 crore in calendar year 2009 to ₹8,720 crore (consolidated revenues) in FY21, while the joint venture with Volvo - VE Commercial Vehicles Ltd had revenues of ₹8,676 crore. This has resulted in unprecedented shareholder value growth of over 17,500 per cent in 12 years, Sandilva said. Earlier in the the Royal Enfield Employees Union came out in

FM unveils...

public, seeking his re-appoint-

ment, stating he was good for

the company and employees.

Sitharaman said the asset monetisation programme is aimed at tapping private sector investment for new infrastructure creation, and is necessary for creating employment opportunities, enabling high economic growth, and seamlessly integrating the rural and semi-urban areas for the overall public welfare.

Contractual partnerships for the execution of the asset monetisation pipeline will be with key performance indicators and performance standards, she said. "They are all de-risked assets, and the value from the consideration and private investment which will come into maintaining it and optimally utilising it will generate greater value and unlock resources for the economy," she said. The NMP will run parallel to the infrastructure creation road map of the government from the current financial year, Sitharaman said. The Centre's share is about 39 per cent in the ₹111trillion NIP. In the roads sector, about 26,700-km stretch would be monetised to mop up around ₹1.6 trillion. The National Highway Authority of India (NHAI) and the Ministry of Road Transport and Highways will drive this through the toll, operate and (TOT) and Infrastructure Investment Trusts (InvITs) models.

The plan includes monetising power transmission lines of 28,609 ckt km to garner ₹45,200 crore. These will be driven by Power Grid Corporation. Monetisation of hydro and solar power generation assets of 6 Gw would

help the government realise ₹39,832 crore, and would be undertaken by National Thermal Power Corporation. National Hydroelectric Power Corporation, and NLC India. Natural gas pipeline of 8,154 km would be monetised by GAIL with an indicative value of ₹24.462 crore. The plan also includes petroleum product pipelines of 3,930 km to be monetised by Indian Oil Corporation, Petroleum Corporation and the Ministry of Petroleum and Natural Gas in realising ₹22,503 crore through public private partnerships (PPPs) and InvITs.

The government will also monetise warehousing assets of 210 lakh MT to realise ₹28,900 crore. These assets are currently owned by Food Corporation of India and the Department of Food and Public Distribution. For railways, the plan is to

monetise railway stations, passenger trains, good sheds, Railway, Hill Konkan Railways, dedicated freight corridor, and railway stadiums to get ₹1.52 trillion. In the telecom sector, 2.86 lakh km fibre and 14,917 towers of BSNL and MTNL are planned to be monetised that will help in realising about ₹35,100 crore. In aviation, the plan is to sell 25 airports and reduce the Airport Authority of India's (AAI) stake in existing airports such as Delhi, Mumbai, Hvderabad, and Bangalore. This would garner proceeds of ₹20,782 crore. In the shipping sector, 31 projects in nine major ports would be monetised to realise ₹12,828 crore. In the coal mining sector, 160 projects have been identified involving a value of ₹28,747 crore. In sports, two national stadiums and two regional centres would be monetised to get a value of ₹11,450 crore. In urban real estate, redevelopment of colonies and hospitality assets worth ₹15,000 crore will be monetised.

"This will be like a PPP where the private sector runs the asset for a period of time but hands it back to the government subsequently. The assets and transactions identified under the NMP are expected to be rolled out through a range of instruments," CARE Ratings said in a note post the announcement.

More on business-standard.com

ing higher than the median salary. Owing to this, despite there being a 9.7 per cent average increase in salaries in FY21, the median shows an increase of just 1 per cent, the statement said. Lal was credited with reviving the brand image of Royal Enfield since he took charge as MD in 2006-07. The annual sales volume in the two-wheeler segment, which was a mere? in 2006-07, increased over 18fold to 609.403 in 2020-21. The two-wheeler sales volume had

19, just before the pandemic set in. remuneration His increased multifold from ₹1.06 crore in 2010 to ₹21.12 crore in 2020-21. "Since taking over as MD and chief executive officer in 2006, Siddhartha has been instrumental in building this foundation and a razor-sharp business focus for EML. His first major initiative was to

even touched 822,724 in 2018-

is impacted by entries and exits of employees," said Manvi Sinha, independent director and chairperson of Nomination and Remuneration Committee at Eicher Motors During FY21, 267 employshed a wide number of underperforming businesses in the

ees joined the company. Of

BS SUDOKU # 3444 6 2 3 9 4 3 8 2 6

SOLUTION TO #3443

2

7 8 4 2 6 9 4 5 8 3 7 3 6 2 5 7 6 9 1

4

8

Easy Solution tomorrow

HOW TO PLAY

6

9

Fill in the grid so that every row, every column and every 3x3 box contains the digits 1 to 9

■ ■ Fullerton

फुलर्टन इंडिया होम फायनेंस कम्पनी लिमिटेड

■ Grihashakti कार्पोरंट कार्यालय : 5वां और 6टा तल, बी—विंग, सुप्रीम आईटी पार्क, सुप्रीम सिटी, पवई, मुम्बई 400 076 पंजीकृत कार्यालय : मेघ टावर्स, तीसरा तल, पुराना नं. 307, नया नं. 165, पूनामल्ली हाई रोड, मधुरावोयाल चेन्नई — 600095

मांग सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पूनर्निर्माण और प्रतिभृति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (''अधिनियम'') और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (''नियमन'') के प्रावधानों के तहत अधोहस्ताक्षरी ने **फुलर्टन इंडिया होम फायनेस कम्पनी लिमिटेड (एफआईएचएफसी)** के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, अधिनियम के अंतर्गत और अधिनियम की धारा 13(12) के साथ पठित नियम 3 के तहत प्रदूत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना(ओं) को जारी कर निम्नलिखित उधारकर्ता (ऑ) को उस सूचना प्राप्त होने की दिनांक से **60 दिनों के भीतर** संबंधित सूचना(ऑ) में उल्लेखित राशि को चुकाने का आहवा-किया। अधोहस्ताक्षरी यथोचित को विश्वास है, कि उधारकर्ता (ऑ) ने मांग सूचना (ऑ) को स्वीकारने से बच रहे हैं, इसलिए सूचना की सेवा नियमों के अनुसार निर्धारण और प्रकाशन द्वारा प्रभावित की जा रहीं है। मांग सूचना (ओं) की अंतर्वस्तु यहां नींचे निकाली जाती है :-

सं. क्र.	उधारकर्ता का नाम/सह–उधारकर्ता संपत्ति धारको जैसा भी मामला हो	13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की दिनांक और कुल बकाया
	ऋण खाता सं. 609107210414496 और 609107510418398 [1] शुभराम यादव पुत्र अभयराम यादव [2] संतोष यादव पत्नी शुभ राम पता 1 : गोपाल जी अपार्टमेंट राशन कार्यालय के पास आरजेड़ 364/ए, फ्लैट सं. 5, दूसरा तल राजनगर—2, पॉलम कॉलोनी, दिल्ली—110045	दिनांक : 12.08.2021 रु. 50,29,250.24 (रु. पचास लाख उनतीस हजार दो सौ पचास और चौबीस पैसे मात्र) एनपीए दिनांक : 31.07.2021

परिष्पितियाँ/बंधक संपत्ति का विवरण: संपत्ति सं. 1: फ्लैट घारक निजी सं. 07 तीसरे तल पर बिना छत अधिकारों, पश्चिमी क्षेत्र मापक क्षेत्र 75 वर्ग गज, संपत्ति धारक सं. आरजेड—364/ए पर निर्मित, खसरा सं. 54/2 का पुराना भाग, राजनगर 2 पर स्थित पॉलम कॉलोनी क्षेत्र ग्राम—पॉलम नई दिल्ली, संपत्ति सं. 2: फ्लैट धारक निजी सं. 05 दूसरे तल पर बिना छत अधिकारों, पश्चिमी क्षेत्र मापक क्षेत्र 75 वर्ग गज, संपत्ति धारक सं. आरजेड—364/ए पर निर्मित, खसरा सं. 54/2 का पुराना भाग, राजनगर 2 पर स्थित पॉलम कॉलोनी क्षेत्र ग्राम—पॉलम नई दिल्ली

ऋण खाता सं. 609107210428938 [1] कुश कुमार, पुत्र किशोर कुमार [[3] इंदु देवी, पत्नी किशोर कुमार [प्रता 1: डब्ल्यूजेड़—144/160, सुदर्शन पॉर्क रमेश [2] बिट्टू कुमार, पुत्र किशोर कुमार [2] किशोर कुमार पुत्र जोगेन्दर चौधरी श नगर; एच.ओ. पश्चिम दिल्ली, दिल्ली—1 100 15 रु. 21,59,776.07 (रु. इक्कीस लाख उनसाट हजार सात सौ छिहत्तर और सात पैसे मात्र)

प्रत्याभृत परिसंपत्तियाँ / <mark>बंधक संपत्ति का विवरण :</mark> दूसरा तल निर्मित संपत्ति सं. सी—9 7 के पश्चिमी भाग के पीछे की ओर निर्मित, मापक 13 1 वर्ग गज, 'खसरा सं. 706 मिन का भाग, ग्राम बसाई दारा पुर क्षेत्र **सुदर्शन पॉर्क एक्सटेंशन** के नाम से ज्ञात कॉलोनी पर स्थित, नई दिल्ली

दिनांक : 12.08.2021 रु. 17,69,015.46 (रु. सत्रह लाख उनहत्तुर हजार पंद्राह और छियार्ल ऋण खाता सं. 609107210435632 [1] परमवी सिंह भाटिया पुत्र [2] नवदीप कौर, पत्नी परमवीर सिंह भाटिया पुता 1: फेब्रिक गैलेरी, प्लॉट सं. ८, लोकल शॉपिंग कॉम्पलेक्स सं. ४, डीपी ब्लॉक मार्केट पितमपुरा, दिल्ली—110088, पुता 2: मकान सं. ९९, संदेश विहार, पीतमपुरा सरस्वती विहार, पैसे मात्र) एनपीए दिनांक : 31.07.2021 प्रत्याभृत परिसंपत्तियाँ /<mark>बंधक संपत्ति का विवरण</mark> ; फ्री होल्ड डीडीए जनता फ्लैक धारक सं. 145—ए, भूतल पर क्षेत्र, मापक 22 वर्ग मीटर ब्लॉक सीडी में , पीतमपुरा आवासीय स्किम के लेआउट में स्थित दिल्ली

ऋण खाता सं. 609107210466783 दिनांक : 12.08.2021 रु. 13,13,193.83 (रु. तेरह लाख तेरह हजार एक सौ त्रिया त्राता त्रा अवशास्त्र । [1] नंद किशोर पुत्र रमेश चंद | [2] मनीषा पत्नी नंद किशोर पता 1 : आरजेड 888 , प्रथम तल , एसटी सं. 9/3 ए , साध नगर , पॉलम कॉलोनी दिल्ली तिरानबे और तिरयासी पैसे मात्र

प्रत्याभूत परिसंपत्तियों/बंधक संपत्ति का विवरण : संपत्ति धारक सं. ३०४ मापक क्षेत्र १०० वर्ग गज, खसरा सं. ३८७ से बाहर, ग्राम नवाव . , ब्लॉक–एल–एक्सटेंशन के नाम से ज्ञात के क्षेत्र में स्थित, मोहन गॉर्डन उत्तम नगर, नई दिल्ली, दिल्ली ऋण खाता सं. 609107210612248 दिनांक : 12.08.2021 रु. 67,05,788.50 (रू. सङ्सठ लाख पांच हजार सात सौ अड्डासी और पचास पैसे मात्र) एनपीए दिनांक : 31.07.2021 [1] नदीम एहमद पुत्र मोहम्मद अनीस [2] परवीन पत्नी मोहम्मद अनीस

<u>पता 1 :</u> प्लॉट सं. 30, दूसरा तल, रवि नगर, नई दिल्ली, दिल्ली–1 100 18 **प्रत्याभुत परिसंपत्तियों/बंधक संपत्ति का विवरण :** संपूर्ण दसरा तल बिना छत अधिकारों संपत्ति धारक सं. 30 पर निर्मित भूमि मापक क्षेत्र 150 वर्ग गर्ज, खसरा सं. 32/12 के बाहर (रेक्टएंग्ल सं. 32, किला सं. 12) ग्राम : ख्याला और **रवि नगर** नाम से ज्ञात कॉलोनी के क्षेत्र में स्थित, न

ऋण खाता सं. 609107510403496 श्रिण खाता स**. 60910/510403496** [1] तर्फण चयाल पुत्र नाम फल [2] रामफल पुत्र तिरखा राम [2] फोक्स लाईट मालिक तर्फण दयाल पुता 1: बीई 389, गली सं. 8, हरी नगर, मायापुरी, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, दिल्ली—110 064; पुता 2: मकान्सं. 1422, 8 बिसवा वार्ड सं. 3, ग्राम गुडगांव, हरियाणा—122001 पुता 3: बीई 377, गली सं. 8, हरी नगर, मायापुरी, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, दिल्ली—110 064; पुता 4: फोक्सलाईट, एफ–114, फेज—2, मायापुरी, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, दिल्ली-1 10064

(रु. चौवन लाख इकतालीस हजार एक सौ सैंतालीस और छियानबे पैसे मात्र) एनपीए दिनांक: 31.07.2021

दिनांक : 12.08.202

प्रत्याभृत परिसंपत्तियों /बंधक संपत्ति का विवरण : प्लाट भूमि मापक क्षेत्र 300 वर्ग गज खसरा सं. 739 1 / 24 का भाग, गुड़गांव ग्राम स्थित : आबाव राजेन्द्र पॉर्क, नगर निगम अंतर्गत, गुङ्गाव तहसील और जिला गुङ्गाव, हरियाणा <mark>सीमांकन : ■ पूर्व :</mark> 45 फुट सङ्क; **■ पश्चिम :** अन्य स्वामित्व की संपत्ति ; **■ उत्तर :** अन्य स्वामित्व की संपत्ति ; **■ दक्षिण** : अन्य स्वामित्व की संपत्ति

ऋण खाता सं. 609107510483922 दिनांक : 12.08.2021 [2] शर्मा रोडवेज, मालिक सौरभ शर्मा (1) सौरभ शर्मा पुत्र मुकेश ₹. 54,60,874.31 [4] सवित्री शर्मा , पुत्र मुकेश कुमार शर्मा (रु. चौवन लाख साठ हजार आठ सौ चौहत्तर और डकत्तीस पैसे मात्र) <u>पता 1 :</u> मकान सं. 18–1/65, नया आरया नगर, हापुर, उत्तरप्रदेश–245101 ; <u>पता 2 :</u> तलघर 19 सुंदरम भवन, आरडीसी राजनगर, गाजियाबाद, उत्तरप्रदेश–201002

प्रत्याभूत परिसंपत्तियों /बंधक संपत्ति का विवरण : एक आवासीय मकान पुराना सं. ६६ और नया म्युनिसिपल सं. ६०८ जिसका क्षेत्र 164 वर्ग गज खसरा सं. 125 में शामिल, आरया नगर पर स्थित, वार्ड सं. 33, हापुर जिला गाजियाबाद (वर्तमान जिला हापुर) **जिसका मापक और सीमांक**न निम्न प्रकार : मापक और सीमांकन : **= पूर्व** : भगत राम का मकान ; **= पश्चिम** : 12 फुट चौड़ा रास्ता ; **= उत्तर** : दया चंद लेखपाल का मकान ; **दक्षिण :** अन्य का मकान

ऋण खाता सं. ६०९१०७५१०५०८५२७ [2] रमेश कुमार पुत्र सुदेश कुमार सचदेवा [3] गौरव सचदेवा पुत्र रमेश सचदेवा प्रता 1: सचदेवा स्टोर, एफ–8, सुभाष चौक, लक्ष्मी नगर, पूर्व दिल्ली, दिल्ली–110092; प्रता 2: एफ–15–ए, सुभाष चौक, लक्ष्मी नगर, शक्करपुर, वारामद, दिल्ली–110092

दिनांक : 12.08.2021 रु. 55,79,491.74 रु. पचपन लाख उनासी हजार चार सौ इक और चौहत्तर पैसे मात्र)

प्रत्या<u>भृत परिसंपत्तियों /बंधक संपत्ति का विवरण :</u> एक दुकान पी.वी. सं. 1 मापक क्षेत्र 10 फुट x 20 फुट भूतल पर प्लॉट सं. एफ—15 /ए प निर्मित, खसरा सं. 6 1 / 1 के बाहर, एफ ब्लॉक की आबादी में स्थित, एक्सटेंशन लक्ष्मी नगर, ग्राम खुरैजी खास इलाका के क्षेत्र में , साहदरा दिल्ली

पत्र द्वारा उधारकर्ता(ऑ) को मांग सूचना का अनुपालन करने और इस प्रकाशन की दिनांक से 60 दिनों के भीतर उसमें उल्लेखित मांग राशि का भुगतान करने की सलाह दी जाती है, जिसमें भुगतान को वसूली की प्राप्ति की दिनांक तक लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस शुल्क, लागत और व्यय शामिल हैं। उधारकर्ता(ऑ) को यह जानकारी होनी चाहिए कि **एफआईएचएफसी** एक प्रत्याभृत ऋणवाता है और उधारकर्ता (द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा अचल संपत्ति /संपत्तियों के विरुद्ध एक प्रत्याभृत ऋण है जो उधारकर्ता(ऑ) द्वारा बंधक रखी गई प्रत्याभृत संपत्ति(ऑ) पर प्राप्त किया है। यदि उधारकर्ता(ऑ) निधरित समय के भीतर अपनी देनदारियों प्रत्यानित ऋण हे जा उचारकता (आ) बारि बंबक रखा ने प्रत्यानित संपत्ति आ) पर प्राप्त किया हो या उचारकता (आ) निवास समय के भारर अपना दनवारिय का पूर्ण रूप से निर्वहन करने में विफल रहते हैं, तो **एकआईएचएफसी** अधिनियम और नियम के तहत बिक्री के माध्यम से हस्तांतरित या उपलब्ध किसी अन्य उपाय के लागू करके और मुगतान की वसूली करना सीमित नहीं है। **एकआईएचएफसी** को बिक्री या हस्तांतरण के अधिकार को लागू करने से पहले प्रत्यामृत परिसंपत्ति (ऑ) को **संतम्न करने और /या सील्** करने का अधिकार भी है। प्रत्यामृत परिसंपत्ति (ऑ) की बिक्री के बाद, यदि बंधक रखी गर्ड संपत्तियों का मूल्य एफआईएचएफसी की

को सलम्न करन आर / यो साल करन को आधकार भी हो प्रत्यामून पारसपात्त (आ) को बिक्रो के बाद, यद बधक रखा गई सपात्त्या को मूल्य एफआइएचएफसी को देय बकाया राशि को कल्य करने के लिए अपयोग है, तो एफआइएचएफसी को लेश उपयोग के अलावा और स्वतंत्र है। यह उपाय किसी अन्य कानून के तहर एफआईएचएफसी के लिए उपलब्ध अन्य सभी उपायों के अलावा और स्वतंत्र है। उधारकर्ता(ओं) का ध्यान उपलब्ध समय के संबंध में, प्रत्यामून परिसंपतियों को छुड़ाने के लिए, अधिनयम की घारा 13(8) में आमंत्रित किया जाता है। और इसके अलावा अधिनयम की घारा 13(8) की ओर, जिसके तहत उधारकर्ता(ओं) को प्रत्यामून परिसंपति(ओं) के निपटान या उससे निपटने या बिक्री, पृष्टे या अन्यश (यवस्वाय के साधारण पाव्यक्रम के अलावा) किसी भी माध्यम से प्रत्यामून परिसंपत्ति(ओं) के स्थानांतरित करने से रोका/निषद्ध किया जाता है, जो एफआईएचएफसी की पूर्व लिखित सहमति के बिना हो और उपरोक्त का अनुपालन न करना अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है। मांग सूचना की प्रति अधोहरनताक्षरी के पास उपलब्ध है और उधारकर्ता(ओं) यदि वे चाहते हैं, तो सामान्य कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्य देवस पर अधोहरत्ताक्षरी से इसे

स्थान : दिल्ली **दिनांक :** 24.08.2021

प्राधिकृत अधिकारी, **फुलर्टन इंडिया होम फायनेंस कम्पनी लिमिटे**ड

टाइमेक्स ग्रुप इंडिया लिमिटेड

(CIN: L33301DL1988PLC033434)

पंजीकत कार्यालयः ई-10, लोअर ग्राउंड फ्लोर, लाजपत नगर-III, नई दिल्ली-110024 दूरभाषः 011-41021297, वेबसाइट : www.timexindia.com, ईमेल : investor.relations@timex.com

33वीं वार्षिक आम बैठक की सचना

एतदृद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी के सदस्यों को भेजी गई सूचना दिनांकित 30 जून, 2021 में किए गए उल्लेख के अनुसार व्यवसायिक पहुलओं पर चर्चा करने के लिए वीडियो काँफ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से कंपनी की 33वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बृहस्पतिवार, 16 सितम्बर, 2021 को अपराहन 4.00 बजे आयोजित होगी। कॉरपोरेट कार्य विषयक मंत्रालय द्वारा जारी साधारण सर्कुलर दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020 तथा 🗓 जनवरी, 2021 ("एमसीए सर्कुलर") तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी तथा साधारण सर्कुलर दिनांक 12 मई, 2020 तथा 15 जनवरी, 2021 ("सेबी सर्कुलर") के अनुसार कंपनी ने वार्षिक प्रतिवेदन 2020-21 के साथ 33वीं एजीएम की सूचना बुधवार, 18 अगस्त, 2021 को सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उन सभी सदस्यों को भेज दी गई है जिनके ई-मेल आईडी कंपनी अथवा पंजीयक एवं अंतर एजेंट तथा डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत हैं। एमसीए सर्कुलरों तथा सेबी सर्कुलर के तहत वार्षिक प्रतिवेदन तथा एजीएम की सचना की भौतिक प्रतिनिधि भेजने की जरूरत को भी समान कर निया गया है।

कंपनी के वार्षिक प्रतिवेदन 2020-21 के साथ एजीएम की सचना कंपनी की वेबसाइट यानी www.timexindia.com एवं बीएसई लिमिटेड की वेबासाइट यानी www.bseindia.com तथा एनएसडीएल कं वेबसाइट यानी www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है। कंपनी अधिनयम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ पठित उसके अधीन गठित नियमों, सेबी विनियमनों तथा सचिविक मानकों के अनुपालन के तहत एजीएम में निर्धारित किए जाने वाले व्यवसायिक पहलुओं

के संबंध में कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम से पहले तथा एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। कंपनी सभी सदस्यों के लिए ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए नेशनल सिक्योरिटेंग डिपॉजिटरिज लिमिटेड (एनएसडीएल) को नियुक्त किया है। ई-वोटिंग के दिशा निर्देश एजीएम की सूचना में उल्लेखित है। सदस्यों को सूचित किया जाता है किः क. रिमोट ई-वोटिंग की अवधि 13 सितम्बर, 2021 (सुबह 9.00 बजे) शुरू होगी तथा 15 सितम्बर, 2021 (अपराहन 5.00 बजे भमास) समाप्त होगी। ऊपरोक्त तारीख एवं समय के उपरांत एनएसडीएर

दारा वोटिंग के लिए ई-वोटिंग पारूप निशक्त कर दी जाएगी। सदस्यों के लिए वोट डालने का अधिकार बुधवार, 8 सितम्बर, 2021 (अंतिम तारीख) को कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के समानुपात के अनुसार होगा। अंतिम तारीख को सदस्य

के रिजस्टर/लाभभोगी स्वत्वाधिकारी के रिजस्टर में जिन व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं सिर्फ वे ही एजीएम से पहले अथवा दौरान रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ पाने के पात्र होंगे। रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली की सुविधा बैठक के दौरान भी उपलब्ध रहेगी तथा रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपना वोट नहीं डालने वाले सदस्य जो बैठक में उपस्थित होते हैं, तो बैठक के दौरान अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। जो सदस्य बैठक से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपना वोट डाल चुके हैं वे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बैठक में उपस्थित हो सकते हैं, परंतु वे इन प्रस्तावों पर दोबारा वोट डालने के पात्र नहीं होंगे। एक गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक अथवा भौतिक प्रारूप मैं प्रतिभृतियां धारण रखने वाले शेयरधारक, सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण किया है अथवा सदस्य बने हैं एवं अंतिम तारीख त

शेयर धारण रखते हैं, वे evoting.nsdl.co.in पर अनुरोध भेज कर युजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं, तो व वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।

इलेक्टॉनिक प्रारूप में शेयर घारण करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक. जो सचना भेजे जाने के बाद कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण किया है अथवा सदस्य बने हैं एवं अंतिम तारीख तक शेयर धारण रखते हैं वे एजीएम की सूचना में उल्लेखित लॉगइन प्रक्रिया का अनुसरण कर सकते हैं। सदस्यगण ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल अथवा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ पंजीकृत डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के जरिए धारित डिमैट खाते के मौजूदा लॉगङ्

अनुसंशाओं का प्रयोग कर लॉगइन कर सकते हैं। जिन सदस्यों ने अब तक कंपनी/आरटीए/डीपी के साथ अपने ईमेल का पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनसे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से एजीएम की सूचना तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त करने तथा ई-वोटिंग के लि

लॉग इन आईडी तथा पासवर्ड हासिल करने हेतु अपने ईमेल का पता पंजीकृत कराने के लिए नीचे उल्लेखित प्रक्रिया का अनुसरण करने के अनुरोध किया जाता है: भौतिक प्रारूप में शेयर धारण रखने वाले शेयरधारकों के लिए - कंपनी के पास investor.relations@timex.com पर ईमेल के जरिए फोलियो नं., शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र (साम एवं पीछे) की स्कैन की हुई प्रतिलिपि, पैन (पैन कार्ड की स्वयं सत्यापित स्कैन की हुई प्रतिलिपि), आधार (आधार कार्ड की स्वयं सत्यापित स्कैन की हुई प्रतिलिपि) प्रवत्त करना होगा।

डिमैट प्रारूप में शेयर धारण रखने वाले शेयरधारकों के लिए - कंपनी के पास investor.relations@timex.com पर ईमेल के जरिए डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकों वाली डीपीआईडी+सीएलआईडी अथवा 16 अंको वाली बेनिफिशियरी आईडी), नाम, क्लाइंट मॉस्टर अथवा समेकित खाता विवरण की प्रतिलिपि, पैन (पैन कार्ड की स्वयं सत्यापित स्कैन की हुई प्रतिलिपि), आधार (आधार कार्ड की स्वयं सत्यापित स्कैन की हुई प्रतिलिपि) प्रदत्त करना होगा।

डिपॉजिटरी यानी एनएसडीएल तथा सीडीएसएल के जरिए लॉगइन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के लिए डिमैट प्रारूप में प्रतिभृतियां घारण रखने वाले व्यक्तिगत शेयरघारकों के लिए

ı	लॉगइन का प्रकार	स्क का विवरण				
ı	एनएसडीएल के पास डिमैट प्रारूप में प्रतिभूतियां	लॉगइन में किसी भी तरह की तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्यगण पर evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज कर अथवा				
ı	धारण रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकगण	टोल फ्री नम्बर 1800 1020 990 तथा 1800 22 44 30 पर कॉल कर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से सम्पर्क कर सकते हैं।				
ı	सीडीएसएल के पास डिमैट प्रारूप में प्रतिभूतियां	लॉगइन में किसी भी तरह की तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्यगण पर helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध				
ı	धारण रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकगण	भेज कर अथवा 022-23058738 अथवा 022-23058542-43 पर कॉल कर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से सम्पर्क कर सकते हैं।				
एतदद्वारा यह भी सुचना दी जाती है कि 16 सितम्बर, 2021 को आयोजित होने वाली 33वीं एजीएम के उद्देश्य से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासनिक) नि						

2014 के अनुसार कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर तथा शेयर अंतरण बही मंगलवार, 14 सितम्बर, 2021 से बुधवार, 15 सितम्बर, 2021 तक (दोनों दिन सहित) बंद रहेगी। आपके पास अगर कोई प्रश्न है, तो आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड्स सेक्शन में उपलब्ध सदस्यों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल तथा फ्रिक्वेंटली ऑस्क्ड क्वेश्वन्स (एफएक्यू) देख सकते हैं अथवा एनएसडीएस से निम्नलिखित टोल फ्री नं. 1800-1020-990/1800-224-430 पर सम्पर्क कर सकते हैं अथवा evoting.nsdl.co.in पर सुश्री पल्लवी माहत्रे, प्रबंधक, एनएसडीएल से सम्पर्क क

निदेशक मंडल के आदेशानर कृते टाइमेक्स ग्रुप इंडिया लिमिटेर स्थान : नोएडा धीरज कुमार मग्ग तारीख : 23 अगस्त, 2021

🖍 ऐक्सिस बैंक

पंजीकृत कार्यालयः 'त्रिशूल', तृतीय तल, समर्थेश्वर मंदिर के सामने लॉ गार्डन, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-380006

सरफेसी अधिनियम 2002 के अंतर्गत कब्जा सूचना

जबिक अधोहस्ताक्षरकर्त्ता ऐक्सिस बैंक लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए प्रदत्त शक्तियों वे अनुप्रयोग में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभतिकरण एवं पुनर्गठून और प्रतिभति हित प्रवर्तन अधिनिय 2002 की धारा 13(12) सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 9 के अंतर्गत निम्नलिखित ऋणीयों के मांगनी करते हुए, मांग सूचना पत्र की प्राप्ति दिनांक से 60 दिनों के भीतर नोटिस में वर्णित राशि लौटाने के लिये निर्गमित किया।

करणी के वह राशि लौटाने में विफल होने पर, ऋणी को विशिष्टतया और सर्वसाधारण के सामान्यतया एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धार 13(4) सपठित उक्त नियमों के नियम 8 के तहत् उसको प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में, एतस्मि नीचे वर्णित सम्पत्ति का आधिपत्य निम्नलिखित दिनांक को ग्रहण कर लिया हैं। ऋणी को विशिष्टतर और सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद् द्वारा संपत्ति के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी द जाती है और संपत्ति के साथ कोई व्यवहार, ऐक्सिस बैंक लिमिटेड के प्रभार के अध्यधीन होगा।

ऋणी/सहऋणी		मांग सूचना	कब्जे	माग सूचना मे		
का नाम	सम्पत्ति का विवरण	,	की दिनांक	(रू. म)		
जीनियस पब्लिकेशन	1. प्लॉट नं. ए-68 सुन्दर सिंह भण्डारी नगर	23/04/2021	18/08/2021	₹.		
प्राईवेट लिमिटेड	आवेदक), प्लॉट नं. ए-69 सुन्दर सिंह भण्डारी नगर स्वेज फार्म सोडाला एन एस रोड					
(आवंदक),						
सुश्री सीमा गोयल	जयपुर, राजस्थान-302019 इण्डिया,	उपरोक्त वरि	र्गेत संपत्तियां	एवं लागतें		
	्रिक्तात जनगराः जगाना जागत महन जाता न तनुवत रूप त जनगर					
श्री अजय गोयल 916030018122056 916030018134703 916060018127382						
(सह-आवेदक)						
उपरोक्त वर्णित ऋणी /सह—ऋणी /जमानवदार को ३० दिवस का भगवान हेत नोटिस दिया जाता						

अन्यथा इस नोटिस के प्रकाशन से 30 दिवस की समयावधि पूर्ण होने पर बंधक संपत्ति प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 8 व 9 के प्रावधानों के अनसार बेच दी जाएगी। म्हणीयों को सचेत किया जाता है कि वे सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावध

के अनुसार निर्धारित समय में प्रतिभूत आस्तियों का मोचन करवा लेवें। हस्ता/- (प्राधिकृत अधिकारी) ऐक्सिस बैंक लिमिटेड

YES // BANK

पंजीकृत और कारपोरेट कार्यालयः येस बैंक हाऊस. ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, सांताकृज ईस्ट, चत्तं चया शांकरा, जान परिना प्रकार शिक्ष सार्वाध्यक्ष हुए. मुंबई–400055, सीआईएन: L65190MH2003PLC143249, ई–मेल: communications@yesbank.in, वेबसाइट: www.yesbank.in **शाखा कार्यालय:** प्लॉट नं. 1/9, पटेल नगर (पश्चिम), नई दिल्ली–1100

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

सरफासी नियमावली के नियम 9(1) के साथ पठित नियम 8(6) के तहत प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्ती: आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 वं तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना

एतदद्वारा सर्वसाधारण और विशेष रूप से कर्जदार(ओं) और जमानती(ओं) को सूचित किय जाता है कि प्रत्याभृत ऋणदाता को बंधक / प्रभारित अधोल्लिखित अचल संपत्ति जिनक येस बैंक लि. अर्थात प्रत्याभूत ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा ले लिय गया है, कर्जदार (ओं) और जमानती(ओं) से प्रत्याभृत ऋणदाता को देय दिनांक 31 जुलाई 2020 को राशि 🕏. 49,28,762.01/— (रुपये उनचास लाख अठाईस हजार सात सौ बासट और एक पैसा मात्र) और अनुबंधित दर से भविष्य की ब्याज व प्रभारों की वसूली के लिए "जो है, जहाँ है", "जहाँ है, जैसी है" और "जो भी है" आधार पर **04 अक्टूबर, 2021** को बिक्री की जायेंगी। प्राधिकृत अधिकारी से पूर्व समयादेश लेकर इच्छुक पार्टियों/ निविदाकारों द्वारा संपत्ति का निरीक्षण **24 सितंबर, 2021 को समय पूर्वा. 11:00 से अप. 2:00** के बीच किया जा सकता है।

कर्जदार/जमानती(ऑ)/प्रतिभृति प्रदाता/ओं के नामः 1. मेसर्स कृष्णा लेस एंड फैब्रिक्स अपने प्रोपराईटर, श्री गौरव शर्मा के माध्यम से ("कर्जदार")

114/90, मानसरोवर बिल्डिंग, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019 अन्य पता: 1045–बी, गली नं. 9, गोविंदपुरी, नई दिल्ली–110019

जन्म चर्ताः । जन्म जन्म । ५. १, नायस्युःस, १३ विरसाना । १०००। भी गौरव शर्मा पुत्र श्री सुशील शर्मा ("बंधककर्ता और जमानती") निवासी 114/90, मानसरोवर बिल्डिंग, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019 अन्य पताः ए-373, पॉकेट-ए, सरिता विहार, नई दिल्ली-110076 अन्य पताः ४/11, प्रथम तल, पठानपुरा, शाहदरा, नई दिल्ली-110032

मेसर्स मिनी शर्मा पत्नी श्री अनुज शर्मा ("बंधककर्ता और जमानती") निवासी 114/90, मानसरोवर बिल्डिंग, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली—110019 अन्य पताः ए—373, पॉकेट—ए, सरिता विहार, नई दिल्ली—110076 अन्य पताः 4/11, प्रथम तल, पठानपुरा, शाहदरा, नई दिल्ली—110032

31 जुलाई, 2020 को देय राशि रु. 49,28,762.01/— (रुपये उनचास लाख अठाईस हजा प्तात सौ बासठ और एक पैसा मात्र)

संपत्ति का विवरणः संपत्ति का प्रकृतिः आवासीय फ्लैट। गाँव चंद्रावली, शाहदरा, पठानपुर नाम की आबादी में, शाहदरा, दिल्ली—110032 स्थित संपत्ति नं. 04/11 का भाग, खसरे नं. 642 में से आवासीय मकान, प्रथम तल केवल छत लेवल तक बिना छत अधिकारों के माप 153 वर्ग गज, के समस्त भाग व खंड। सीमाएँ:– पूर्वः 15 फुट चौड़ी गली, पश्चिग फुट गली, उत्तरः अन्य की संपत्ति, दक्षिणः अन्य की संपत्ति

आरक्षित मूल्य (रु.): रु. 52,00,000/— (रुपये बावन लाख मात्र)

धरोहर राशि जमा (रु.) रु. 5,20,000/- (रुपये पाँच लाख बीस हजार मात्र)

भौतिक कब्जे की तारीख : 12 मार्च, 2021

मांग सूचना की तारीखः 31 जुलाई, 2020 निविदा जमा करने की अंतिम तिथिः 29 सितंबर, 2021 समय अप. 3.00 तक

ई—नीलामी की तिथि व समयः 04 अक्टूबर, 2021 पूर्वा. 11:00 से अप. 2:00 तक प्रत्येक 5 मिनटों के विस्तारों सहित

बिक्री के विस्तृत निबंधन व शर्तों के लिए कृपया प्रत्याभूत ऋणदाता की वेबसाइट अर्थात www.yesbank.ii पर दिया लिंक https://10.0.49.5/about-us/media/auction-property देखें। निविदा दस्तावेज / ई-निविदाकरण कैटलॉग प्राप्त करने या अचल संपत्ति / प्रत्याभृत परिसंपत्ति

निरीक्षण में किसी कठिनाई की अवस्था में और पूछताछ के लिए कृपया संपर्क करें: संबंधित अधिकारी, ਪੇਜ਼ ਕੈਂਨ ਨਿ. श्री श्रीनिवासन एम. +91−9313576702 ਹਾ. ਵੰ−ਸੇਨ: srinivasan m1@veshank ir और अधिकारी, मैसर्स ई–प्रक्योरमेंट टैक्नोलॉजीज लिमिटेड (नीलामी टाईगर), अहमदाबाद, वेब पोर्टल पताः https://sarfaesi.auctiontiger.net, निविदाकार सपोर्ट नंबरः 9265562821 / 18 और 9374519754, 079—68136880 / 68136837, ईं–मेल: support@auctiontiger.net और Chintan.bhatt@auctiontiger.net संपर्क व्यक्तिः श्री विंतर भट्ट (मो.) 9978591888 (ऑफिस) 079-68136844 | जैसा कि अधिनियम की धारा 13(8) में अपेक्षित है, हमारे सभी बकाया हमारे द्वारा वहन सभी लागतो

प्रभारों और व्ययों सहित बिक्री की तिथि या हस्तांतरण से पूर्व किसी भी समय हमें चुकता कर दिए जाते हैं तो प्रत्याभत परिसंपत्ति हमारे द्वारा बिकी या हस्तांतरित नहीं की जायेगी और प्रत्याभर परिसंपत्ति के हस्तांतरण या बिक्री के लिए हमारे द्वारा आगे कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी।

कर्जदार/जमानतियों को बिक्री सूचना ातिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित नियम 9(1) के तहत उपर्यक

प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के अंदर इसके भुगतान के लिए बाध्यकारियों (ऑब्लिगेंट्स) को सूचना के रूप में माना जाए।

दिनांक: 24.08.2021

(प्राधिकृत अधिकारी)

BHARTIYE BHARTIYA INTERNATIONAL LIMITED HARTIY

Regd.Office: 56/7, Nallambakkam Village, (Via Vandalur), Chennai-600 127, Tamil Nadu

CIN- L74899TN1987PLC111744 Tel: +91-9551050418-21 E-mail: shares@bhartiya.com Website: www.bhartiya.com

NOTICE TO THE MEMBERS ON INFORMATION REGARDING 34TH ANNUAL GENERAL MEETING

In view of the continuing covid-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide ts circular nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020 and 02/2021 dated April 8, 2020; April 13 2020; May 5, 2020 and January 13, 2021 respectively ("MCA Circulars") permitted to hold Annual General Meeting (AGM) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Video Means ("OAVM") facility, without the physical presence of the members at a commor venue. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and Rules framed thereunder, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Require 2015 ["SEBL(LODR)"] read with SEBL Circular nos. SEBL/HO/CED/CMD1/CIR/P/2020/79 & SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated May 12, 2020 and January 15, 202 respectively ("SEBI Circulars"); and MCA circulars, the Board of Directors of the Compan has decided to convene the 34th AGM of the Company on Wednesday, 29th September 2021 at 11:00 A.M. through VC/ OAVM facility to transact the businesses that will be set ou in the AGM Notice.

Please note that the requirement of sending physical copy of the Notice and Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA and SEBI Circulars. To comply with the provisions of SEBI and MCA circulars, the notice of 34th AGM and Annual Report of the Company for Financial Year ended March 31, 2021 along with the login details for joining the 34th AGM through VC/ OAVM facility including e-voting details will be sent only b e-mail to all those members, whose e-mail addresses are registered with the Company o Registrar and Share Transfer Agent (RTA) or with their respective Depository Participants (DPs). Members can join and participate in the 34th AGM through VC/ OAVM facility only The instructions for joining the AGM, casting their vote at AGM and casting vote through remote e-voting will be provided in the Notice to the 34th AGM. Members participating through VC/ OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the guorum under Section 103 of the Act. The notice of 34th AGM and the Annual Report shall also be available on the Company's website <u>www.bhartiya.com</u> and stock exchange's website www.bseindia.com and www.nseindia.com.

The Company is providing remote e-voting facility and e-voting facility to all its members to cast their votes on all the resolutions set out in the notice of 34th AGM. Detailed instructions for remote e-voting and e-voting during the AGM is provided in the notice of 34th AGM Members will have an opportunity to cast their vote remotely on the businesses as set ou in the AGM Notice through e-voting.

Members holding Shares in physical form who have not registered their e-mail addres with the Company or RTA, can register their e-mail address for receipt of Notice of 34th AGM, Annual Report and the login details for joining the AGM through VC/ OAVM facility by sending a request to MAS Services Limited, Registrar and Share Transfer Agent of the Company at info@masserv.com or contact Company Secretary of the Company a shares@bhartiya.com by providing their name, folio no, scanned copy of share certificates (Front and Back), self-attested scanned copy of PAN card and Aadhar Card in support for registering their e-mail addresses.

Members holding Shares in demat form whose e-mail addresses are not registered are requested to register their e-mail address for receipt of Notice of 34th AGM. Annual Report and the login details for joining the AGM through VC/ OAVM facility, as per the process advised by their DPs. The registered e-mail address will also be used for sending future

Any person, who acquire shares and become member of the Company after the date of electronic dispatch of Notice of 34th AGM and holding shares as on cut-off date i.e. Wednesday, 22nd September, 2021 may obtain the Login ID and password by sending a request at info@masserv.com/shares@bhartiya.com.

This notice is being issued for the information and benefit of all the members of the Company and is in compliance with the applicable circulars of the Ministry of Corporate Affairs and Securities and Exchange Board of India.

Date: 23 August. 2021

Place: Gurugram, Haryana

For Bhartiva International Ltd

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत . अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स रंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरीटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) न साथ सिक्योरीटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, **2002** के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग हरके कर्जदार श्री अखिलेश चौहान, श्री अनिल चौहान, श्रीमती बबिता और अरवांस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को 28.10.2017 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं ILAPNOD00216305 की राशि रू.48,00,569/- (रुपए अड़तालीस लाख पाँच सौ उनहत्तर मात्र) और 28.10.2017 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी।

परिशिष्ट IV

देखें नियम 8(1)

कब्चा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतत्तद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरीटी ईन्टेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रुल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 18.08.2021 को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य कर** लिया है। विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतत्द्वारा संम्पति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशी रू.48,00,569/- (रुपए अड़तालीस लाख पाँच सौ उनहत्तर मात्र) 28.10.2017 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के आधीन होगा

. उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है I

अचल संपत्ति का विवरण

भावासीय डुप्लेक्स अपार्टमेंट नं. 19 में एक ड्राइंग रूम, एक डाइनिंग रूम एक टॉइलेट के साथ एक बेडरूम, एक पाउडर रूम और तल मंजिल पर एक किचन और लॉबी, तीन बेडरूम के साथ तीन टॉइलेट, बालकनी, टेरेस और पहली मंजिल पर मुमती लगभग कुल सुपर एरिया 3325 स्के.फीट (कवर्ड एरिया 2885 स्के.फीट) टाउनशिप क्रॉसिंग रिपब्लिक में ग्रुप हाउसिंग प्लॉट नं.7 पर स्थित, दुंडाहेड्डा, गाज़ियाबाद-201010, उत्तरप्रदेश

ग्रप हाउसिंग प्लॉट नं.7 निम्ननुंसार परिबद्ध है:

पश्चिम : स्कुल /पार्क के लिए प्रस्तावित स्थल पूर्व :24 मी. चौड़ा रोड : गोल्फ कोर्स के लिए प्रस्तावित स्थल दक्षिण : खाली जमीन

प्राधिकृत अधिकारी

प्राधिकृत अधिकारी

दिनांक :18.08.2021 : गाज़ियाबाद इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

> परिशिष्ट IV देखें नियम 8(1) कब्चा सचना (अचल संपत्ति हेत)

स्थान

इंडियाबल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत . अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्टक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरीटी इंटरेस्ट एक्ट. 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरीटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार श्री अखिलेश चौहान, श्री अनिल चौहान, श्रीमती बबिता और अरवांस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को 28.10.2017 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं HLAPNOD00229854 की राशि रू.18,43,694/- (रुपए अठारह लाख तैतालीस हजार छे सौ चौरानवे मात्र)और 27.10.2017 के अनसार उस पर ब्याज उक्त सचना की पाप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतत्तद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरीटी ईन्ट्रेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, **2002** के तहत प्राप्त मधिकारों का कार्यान्वयन करके 18.08.2021 को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य कर** लिया है। वशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एतत्द्वारा संम्पति के साथ सौदा नहीं करने के लिए ावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा **राशी रू.18,43,694/- (रुपए** <mark>ाठारह लाख तैतालीस हजार छे सौ चौरानवे मात्र) 27.10.2017</mark> के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ <mark>डियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड</mark> के आधीन होगा

धारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

भावासीय <u>इ</u>प्लेक्स अपार्टमेंट नं. 19 में एक ड्राइंग रूम, एक डाइनिंग रूम एक टॉइलेट के साथ एक बेडरूम, एक पाउडर रूम और तल मंजिल पर एक किचन और लॉबी, तीन बेडरूम के साथ तीन टॉइलेट, बालकनी, टेरेस और पहली मंजिल पर मुमती लगभग कुल सुपर एरिया 3325 स्के.फीट कवर्ड एरिया 2885 स्के.फीट) टाउनशिप क्रॉसिंग रिपब्लिक में ग्रूप हाउसिंग प्लॉट नं.7 पर स्थित, दंडाहेडा. गाजियाबाद-201010. उत्तरप्रदेश

ग्रुप हाउसिंग प्लॉट नं.7 निम्ननुंसार परिबद्ध है:

:24 मी. चौड़ा रोड पश्चिम : स्कुल / पार्क के लिए प्रस्तावित स्थल : गोल्फ कोर्स के लिए प्रस्तावित स्थल दक्षिण : खाली जमीन

देनांक :18.08.2021 इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

जीनस पावर इन्फ्रास्टक्चर्स लिमिटेड

(पंजीकृत कार्यालयः जी-123, सेक्टर-63, नोएडा-201307 (उत्तर प्रदेश) मेलः cs@genus.in, वेबसाइटः www.genuspower.com, CIN: L51909UP1992PLC051997 29वीं वार्षिक साधारण सभा, बहीबंदी तथा रिमोट ई—वोटिंग की सूचना ार 2021 को ''वीसी'') अथवा अन्य ऑडियों विजअल माध्यामों (''ओएवीएम'') की सर्विधा के माध्यम से, कम्पनी अधिनियम . 2013 तथा उसके निर्मित नियमों तथा सेबी (सूचीयन दायित्वों तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के माथ कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय दारा जारी सर्कालर मंख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल 2020 सर्कालर मंख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, सर्क्यूलर संख्या 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020 और सर्क्यूलर संख्या 02/2021 दिनांक 13 जनवरी. 2021 और अन्य सभी प्रांसगिक सर्क्यलर एवं सेबी दारा जारी प्रांसगिक सर्क्यलरों के अनुसार लागू होने वाले प्रावधान के अनुपालन में, एजीएम के नोटिस में दी गई कार्यवाही को पूरा करने हेतु निर्धारित की गई है । सदस्य, एजीएम के नोटिस में उल्लेखित प्रक्रिया का पालन करके, एजीएम के पारंभ होने के निर्धारित समय से 30

मिनट पहले और बाद में बीसी ∕ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं। उपयुक्त सर्क्युलरॉ के अनुसार, एजीएम का नोटिस एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 की वार्षिकी रिपोर्ट, 20 अगस्त 2021 को ईमेल द्वारा उन सदस्यों को भेजी जा चुकी है जिनके ईमेल पत्ते कम्पनी राजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (''आरटीए'')∕डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंटस के पास पंजीकृत है। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.genuspower.com' सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (''सीडीएसल''/CDSL) की वेबसाइट www.evotingindia.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.nseindia.com और www.bseindia.com पर भी उपलब्ध हैं । कट ऑफ तिथि 09 सितम्बर, 2021 को शेयर धारित करने वाले सदस्य, 29वीं एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट कार्यवाही

पर गाजीगम के दौरान है-लोटिंग अथला ट्रास्थ है-लोटिंग की मलिशा में हलैक्टोनिक माध्यम में अपना मतटान कर मकत है।ई-वोटिंग और एजीएम में शामिल होने की विस्तृत प्रकियाँ एवं निर्देश एजीएम के नोटिस में निहित है। इस संबंध में, सदस्यों को सचित किया जाता कि:

(1) दूरस्थ ई-वोटिंग की अवधि सोमवार, 13 सितम्बर, 2021 (प्रातः 9 बजे) से प्रारम्भ होकर बुधवार, 15 सितम्बर, 2021 (सायं 05:00 बजे) को समाप्त होगी। उक्त ई-वोटिंग कथित तिथि एवं समय के बाद स्वीकार

ा, का जाएगा। (2) दूरस्थ हैं वॉटिंग को सीडीएसल द्वारा सायं 05:00 बजे के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। (3) किसी सदस्य के लिए दूरस्थ ईं-वॉटिंग सुविधा का उपयोग करके मतदान करना अनिवार्य नहीं है। सदस्यों के पास एजीएम में भाग लेकर ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने का भी विकल्प है। सदस्य मतदान के लिए केवल एक ही माध्यम का विकल्प चुन सकते हैं।जिन सदस्यों ने बैठक से पहले दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला वह भी बैठक में शामिल हो सकते हैं, लेकिन फिर से अपना बोट डालने के हकदार नहीं होगे। व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा रखें गए लाभकारी स्वामियों के रजिस्टर में

कट-ऑफ तिथि 09 सितम्बर, 2021 के दिन दर्ज है, वह ही केवल एजीएम में ई-वेटिंग या दरस्थ ई-वेटिंग सुविधा प्राप्त करने के हकदार होंगे। वह व्यक्ति जो उक्त कट-ऑफ तिथि के दिन सदस्य नहीं है, वह इस नोटिस ु को एवं एजीएम के नोटिस को केवल जानकारी हेतु ही उपयोग मे ले । सटस्य. जिनके पास भौतिक रूप में शेयर हैं या जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, वे

रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से या एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से एजीएम के नोटिस मे

उल्लेखित प्रक्रियाओं /निर्देशों का पालन करके अपना वोट डाल सकते हैं। जिन सदस्यों ने अपनी ईमेल पंजीकृत नहीं की है या जिन्होंने एजीएम का नोटिस एवं वार्षिक रिपोर्ट के प्रेषण के बाद शंयरों का अधिग्रहण किया है और जो कट-ऑफ तिथि, यानी गरूवार, 09 सितम्बर 2021 को शंयर धारण करना जारी रखतें है, वे ई-वोटिंग के लिए एजीएम की सूचना में दिए गए निर्देशों के अनूसार यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त/उत्पन्न कर सकते है। यदि कोई व्यक्ति/सदस्य पहले से ही ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल (CDSL) / एनएसडीएल (NSDL) के साथ पंजीकृत है तो मौजूदा लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपय कर अपना वोट डाल सकता है। सदस्य ई-वोटिंग सर्विधा के लिए एनएसडीएल ⁄सीडीएसएल के साथ पंजीकत अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भ लॉगिन कर सकते हैं। ई-वोटिंग सविधा का उपयोग करने के लिए सदस्यों को अपने डीमैट खातों में अपने

मोबाइल नंबर और ईमेल-आईडी अपडेट करने की सलाह दी जाती है। 7) सदस्य, जो वीसी/ओएवीएम की सुविधा के माध्यम से एजीएम में मौजूद है और उन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है अन्यथा ऐसा करने से रोक नहीं है, वह एजीएम के दौरान

वोटिंग के माध्यम से वोट करने के लिए पात्र होंगे। वीसी / ओएवीएम सविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्य को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के

तहत कोरम की गणना में शामिल माना जाएगा। 9) यदि आपके पास सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम से एजीएम और ई-वोटिंग में भाग लेने के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप helpdesk.evoting@cdslindia.com पर एक ईमेल लिख सकते हैं या 022-2308738 और 022-23058542/43 पर संपर्क कर सकते हैं। 10) इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा से जुड़ी सभी शिकायतों को श्री राकेश दलवी, सीनियर मैनेजर.

सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरएक्स, मफतलाल मि कंपाउंड्स, एनएम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मंबई - 400013 को संबोधित किया जा सकता है या helpdesk.evoting@cdslindia.com, पर भेजा जा सकता है या 022-23058542/43 पर कॉल किया ज

1) कम्पनी के निदंशक मंडल ने दूरस्थ ई-वोटिंग एवं वार्षिक सामान्य सभा के दौरान ई-वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जाँच करने के लिए श्री सी. एम. बिन्दल, प्रैक्टिसिंग कम्पनी सचिव (एफसीएस नं. 103, सीपी नं. 176) (मैंसर्स सी. एम. बिन्दल एंड कम्पनी, कम्पनी सचिव, जयपुर) को संवीक्षक के रूप में नियुत्त

नेदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए रू.0.50 (50 पैसे) प्रति ईक्विटी शेयर (1 रू. अंकित मल्य पर) (अंकित मूल्य का 50 प्रतिशत) लाभांश शेयरधारको की अनुमति के लिए प्रस्तावित किया है। शेयरधारकों का रजिस्टर तथा शेयर हस्तांतरण रजिस्टर शुक्रवार, 10 सितम्बर, 2021 से गुरूवार 16 सितम्बर, 2021 (दोनॉ दिन निहत), वार्षिक सामान्य बैठक के लिए एवं लाभांश के लिए सदस्यों के आधिकारों का निर्धारण करने के हेतु बंद रहेंगे। यदि सदस्य एजीएम में अनुभति दे देते हैं तो लाभांश का भुगतान (स्त्रोत पर कर कटौती के अधीन यदि लागू है) 15 अक्टुबर 2021 या उससे पहले, उन सदस्यों को कर दिया जाएगा जिनका नाम सदस्यों के रजिस्टर में 09 सितम्बर 2021 को व्यावसायिक घंटों के बंद होने के समय उपस्थित रहता है । लाभांश का भगतान विभिन्न ऑनलाइन हस्तांरण माध्य से उन सदस्यों को किया जाएगा जिन्होंने अपने बैंक खाते का विवरण अपडेट किया है । जिन सदस्यों ने अपने बैंक खाते के विवरण को अपडेट नहीं किया है. उनके लिए लाभांश वारंट / चेक उपने पंजीकत पते पर डाक सेवाओं की उपल होने पर भेजा आएगा। लाभांश प्राप्त करने में देरी से बचने के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी पार्टिमिपेंटम, (यदि शेयर डीमैट में है), और आरटीए/कंपनी, (यदि शेयर भौतिक रूप में है), के माथ अपने बैंक वेवरण को अपडेट करें ।वित्त अधिनियम 2020 द्वारा संशोधित आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, लाभांश आय सदस्यों के हाथों में कर योग्य है और कंपनी निर्धारित हरों पर सदस्यों को भगतान किए गए लाभांश से स्त्रोत पर कर की कटौती करने हेतु बाध्य है। टीडीएस के अनुपालना हेतु, सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी ⁄ आरटीए (यदि शेयर भौतिक रूप में है) और डिपॉजिटरी (यदि शेयर डीमैट मोंड में हैं) के साथ अपना पैन अपडेट करें ।

कते जीनस पावर इन्फ्रास्टक्चर्स लिमिटेड

दिनांकः 23 अगस्त, 2021

Yogesh Kumar Gautam Company Secretary and Compliance Officer